

Roll No.....

BMB -301 (2)**B.Sc. IIIrd year****Examination – May 2021****Microbiology -II****Time: Three Hours****Maximum Marks :40****Note :-** Attempt any five questions. (Each question carries equal marks)

Q.6 Write down about antigens of ABO and Rh blood group systems.

एबीओ और आरएच रक्त समूह प्रणालियों के प्रतिजनों के बारे में लिखिए।

Q.7 What is the structure and types of cells organs, involved in immune system?

प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल कोशिकाओं की संरचना और प्रकार क्या हैं?

Q.8 Briefly explain generation of antibody diversity.

प्रतिरक्षी विविधता की उत्पत्ति को संक्षेप में समझाइए।

Q.1. What is the structure and function of MHC molecules?

एमएचसी. अणुओं की संरचना और कार्य क्या है?

Q.2 Describe production and application of monoclonal antibodies.

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन और अनुप्रयोग का वर्णन करें।

Q.3 Write down Short notes on immune system and oncogenes.

प्रतिरक्षा प्रणाली और ऑंकोजीन पर संक्षिप्त नोट्स लिखिये ।

Q.4 What is the modern method of vaccine production?

वैक्सीन उत्पादन का आधुनिक तरीका क्या है?

Q.5 Describe in detail about bacterial and viral diseases of human.

मानव में जीवाणु एवं विषाणुजनित रोगों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।